

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	इलाहाबाद बैंक		आंध्रा बैंक		बैंक ऑफ बड़ौदा		बैंक ऑफ इंडिया	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 नकदी-जमा अनुपात	6.83	8.78	7.11	9.92	5.13	6.16	6.00	7.83
2 ऋण-जमा अनुपात	69.34	69.43	67.28	69.26	66.94	70.18	71.00	75.64
3 निवेश-जमा अनुपात	31.48	32.67	34.50	30.14	27.97	28.86	29.61	27.87
4 (ऋण+निवेश) – जमा अनुपात	100.83	102.10	101.77	99.39	94.92	99.04	100.61	103.51
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	88.00	86.35	87.20	87.36	87.26	84.65	84.53	83.89
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	62.03	63.96	65.47	66.43	66.82	68.78	67.78	69.39
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	39.39	36.94	37.49	36.98	28.76	27.62	29.81	28.41
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	53.68	51.86	42.98	41.95	45.28	46.47	39.01	38.73
9 प्रतिभूत (सिक्योरिटी) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	91.54	83.10	80.46	79.10	77.53	73.74	82.62	76.93
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	19.43	23.65	19.55	11.29	23.77	20.90	26.48	19.20
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.94	8.34	7.52	8.24	7.02	7.32	7.03	7.71
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.85	2.36	3.21	2.73	2.79	2.42	2.71	2.64
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.61	1.14	1.01	1.12	1.08	1.27	1.23	1.32
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.67	1.54	2.12	1.81	1.98	1.82	2.05	1.65
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	60.43	59.60	58.81	53.95	64.62	61.47	61.88	62.65
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	14.92	12.20	19.39	13.35	20.63	16.65	19.92	15.38
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	11.80	9.67	14.59	10.46	15.83	13.01	15.37	11.45
18 भार (बर्डन) का कुल आस्तियों से अनुपात	1.06	0.40	1.10	0.70	0.91	0.55	0.82	0.33
19 भार (बर्डन) का ब्याज-आय से अनुपात	13.33	4.80	14.67	8.46	12.91	7.48	11.70	4.27
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	1.79	1.96	2.11	2.03	1.88	1.88	1.89	2.31
21 आस्तियों पर लाभ	1.26	1.32	1.31	1.16	0.80	0.89	0.88	1.25
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	18.49	20.05	17.78	17.97	12.45	14.58	20.65	24.38
23 जमा राशियों की लागत	5.58	6.57	4.80	6.11	4.56	5.35	4.31	5.23
24 उधार लागत	3.45	2.12	5.39	6.35	5.30	4.17	8.68	8.15
25 निधि (फंड्स) की लागत	5.57	6.50	4.82	6.12	4.58	5.33	4.55	5.37
26 अग्रिमों पर लाभ	9.22	9.80	9.22	10.23	8.27	8.84	8.51	9.34
27 निवेशों पर लाभ	8.37	8.44	6.96	7.18	7.31	6.95	6.59	6.83
28 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	3.65	3.30	4.40	4.11	3.69	3.51	3.96	3.97
29 कॉस्ट ऑफ फन्ड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.79	1.94	2.15	1.06	2.73	1.62	2.04	1.46
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	495.00	604.00	536.06	626.53	555.00	710.00	498.00	652.00
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	3.68	4.85	4.14	4.30	2.73	3.94	2.71	4.95
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.52	12.04	11.33	11.61	11.80	12.91	11.75	12.04
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात – टियर – I	8.10	7.75	9.98	8.54	8.74	7.63	6.53	7.70
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात – टियर – II	4.42	4.29	1.35	3.07	3.06	5.28	5.22	4.34
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	1.07	0.80	0.17	0.15	0.60	0.47	0.95	0.52

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	बैंकऑफ महाराष्ट्र		केनरा बैंक		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया		कॉर्पोरेशन बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1 नकदी-जमा अनुपात	6.69	9.32	6.39	8.67	6.61	10.46	7.04	12.82
2 ऋण-जमा अनुपात	67.57	70.13	69.18	69.60	62.57	66.17	70.71	70.70
3 निवेश-जमा अनुपात	33.31	29.41	31.76	32.33	33.51	28.51	34.04	29.79
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	100.88	99.55	100.95	101.93	96.09	94.68	104.75	100.49
5 जमाशायियों का कुल देयताओं से अनुपात	86.95	86.72	85.79	85.35	89.00	89.00	80.34	83.22
6 सावधि जमाशायियों का कुल जमाशायियों से अनुपात	56.84	57.85	68.48	68.51	57.91	63.86	65.93	64.99
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	39.23	37.80	37.24	39.15	39.12	32.88	35.92	35.31
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	64.49	70.00	46.45	51.74	60.13	66.09	60.25	54.72
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	79.71	76.06	78.50	78.09	80.66	71.99	82.33	73.59
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	16.50	13.06	16.05	12.96	19.31	15.46	18.91	13.73
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.75	8.12	7.61	8.20	7.44	7.37	7.21	7.57
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	3.12	2.82	2.70	2.04	2.95	2.05	2.81	2.42
13 व्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.75	0.64	0.97	1.28	0.57	0.73	1.36	1.17
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	2.12	1.92	1.72	1.61	2.01	1.61	1.72	1.50
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	62.20	58.03	62.73	59.52	69.78	69.56	47.08	47.97
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	19.55	15.42	16.25	12.35	21.59	16.15	13.25	10.79
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	15.53	12.70	12.56	10.12	17.52	13.82	9.47	8.20
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	1.37	1.28	0.75	0.33	1.44	0.88	0.36	0.32
19 भार (बर्दन) का व्याज-आय से अनुपात	17.67	15.71	9.81	4.07	19.39	11.94	5.00	4.25
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	1.75	1.54	1.95	1.71	1.51	1.17	2.45	2.10
21 आस्तियों पर लाभ	0.76	0.75	0.98	0.92	0.62	0.54	1.17	1.29
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	16.41	18.64	16.25	15.01	13.77	11.31	15.02	18.39
23 जमाशायियों की लागत	4.93	5.60	5.32	6.71	4.78	5.78	5.00	5.91
24 उधार लागत	0.97	4.03	11.69	10.87	4.35	3.19	2.42	3.73
25 निधि (फंड्स) की लागत	4.88	5.60	5.35	6.77	4.78	5.76	4.85	5.80
26 अग्रिमों पर लाभ	8.66	9.81	8.44	9.60	8.20	8.49	8.79	9.32
27 निवेशों पर लाभ	8.08	8.02	8.09	8.03	8.03	8.32	6.62	6.97
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	3.77	4.22	3.08	2.83	3.42	2.73	3.94	3.52
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	3.19	2.43	2.73	1.27	3.25	2.55	1.77	1.17
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	404.94	515.69	548.76	609.41	303.85	400.99	637.00	839.00
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	1.95	2.39	3.24	3.65	1.35	1.56	4.79	6.52
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.06	10.26	13.50	13.25	10.40	10.42	12.76	12.09
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	6.03	5.13	7.17	7.01	6.32	5.42	11.30	9.64
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	6.03	5.13	6.33	6.24	4.08	5.00	1.46	2.45
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	1.21	0.87	0.94	0.84	1.70	1.45	0.47	0.32

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	देना बैंक		आइडीबीआई बैंक लि.		इंडियन बैंक		इंडियन ओवरसी बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1 नकदी-जमा अनुपात	7.07	10.41	12.47	9.17	7.92	10.54	6.82	10.82
2 ऋण-जमा अनुपात	66.1	67.83	144.09	112.62	61.71	65.26	68.46	71.66
3 निवेश-जमा अनुपात	33.35	30.29	59.22	44.94	44.34	35.9	34.88	33.77
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	99.45	98.13	203.32	157.56	106.04	101.16	103.34	105.42
5 जमाराशियों का कुल देयताओं से अनुपात	88.04	87.84	41.75	55.85	83.87	86.58	83.57	82.79
6 सावधि जमाराशियों का कुल जमाराशियों से अनुपात	55.49	60.76	74.57	83.44	64.59	67.65	65.14	66.55
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	39.54	34.36	14.87	18.53	45.1	37.64	38.22	33.6
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	53.66	47.17	87.56	86.77	62.41	62.1	53.78	52.87
9 प्रतिभूत (सिक्योर्ड) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	78.67	78.06	88.62	88.19	86.66	85.37	93.15	88.97
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	16.09	16.47	36.87	28.93	20.1	18.31	12.76	12.22
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.31	7.73	6.6	6.84	8.08	8.13	8.24	8.66
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.95	2.55	0.68	0.56	3.43	3.15	3.62	2.91
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	1.35	1.27	1.07	1.39	1.59	1.69	0.55	0.88
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	2.11	1.86	0.81	0.82	2.40	2.21	1.96	1.61
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	62.81	57.02	36.34	40.11	70.48	69.09	67.09	63.94
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	20.49	15.03	4.38	4.62	24.01	21.22	19.98	14.02
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	15.3	11.76	3.84	3.98	17.51	15.56	14.97	10.82
18 भार (बर्डन) का कुल आस्तियों से अनुपात	0.76	0.59	-0.26	-0.58	0.82	0.52	1.41	0.74
19 भार (बर्डन) का ब्याज-आय से अनुपात	10.38	7.62	-3.92	-8.44	10.1	6.45	17.16	8.5
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	2.19	1.96	0.94	1.14	2.62	2.62	2.2	2.17
21 आस्तियों पर लाभ	0.71	1.06	0.67	0.67	1.46	1.64	1.36	1.30
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	14.22	21.82	8.59	8.52	24	22.29	28.14	27.18
23 जमाराशियों की लागत	4.64	5.58	5.75	6.53	5.05	5.51	4.86	6.25
24 उधार लागत	2.74	1.74	0.31	0.53	3.19	3.64	7.46	5.48
25 निधि (फंड्स) की लागत	4.62	5.52	2.68	4.07	4.97	5.46	4.93	6.20
26 अग्रिमों पर लाभ	8.56	9.45	9.10	9.00	9.90	10.17	9.54	10.28
27 निवेशों पर लाभ	7.47	7.44	3.91	4.69	7.77	7.49	7.94	8.53
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	3.94	3.93	6.42	4.93	4.93	4.71	4.60	4.07
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.85	1.92	1.24	0.62	2.8	2.03	3.00	2.32
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	458.00	559.00	1387.16	1809.17	364.00	488.00	467.23	582.70
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	1.99	3.61	8.44	8.86	3.64	4.91	4.04	4.82
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.52	11.09	13.73	11.95	14.14	12.86	13.27	11.96
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - ख	6.06	6.75	9.11	7.42	12.28	11.41	8.20	7.86
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - खख	5.46	4.34	4.62	4.53	1.86	1.45	5.07	4.10
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	1.99	0.94	1.12	1.30	0.35	0.24	0.55	0.60

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स		पंजाब एण्ड सिंध बैंक		पंजाब नेशनल बैंक		सिंडिकेट बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1 नकदी-जमा अनुपात	8.34	9.4	5.56	7.87	8.85	9.17	8.36	10.90
2 ऋण-जमा अनुपात	68.97	70.09	60.76	73.87	69.07	71.79	65.71	67.3
3 निवेश-जमा अनुपात	30.95	30.76	34.65	34.12	32.31	32.44	32.09	29.5
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	99.92	100.85	95.4	108	101.38	104.23	97.8	96.8
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	86.56	85.83	87.96	80.23	86.11	83.64	88.08	88.83
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	69.7	72.1	54.28	63.66	53.84	57.01	69.37	69.05
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	33.08	32.13	40.27	32.3	37.81	38.67	32.81	32.13
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	60.58	58.89	59.44	63.46	50.52	49.54	72.44	71.87
9 प्रतिभूत (सिक्के) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	89.24	90.45	79.01	77.63	85.38	83.18	71.21	71.68
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	15.55	13.28	9.09	7.47	16.75	16.62	9.99	9.89
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.77	8.31	8.42	8.5	7.3	7.89	8.03	8.05
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.55	2.04	3.74	3.08	3.39	3.06	2.86	2.11
13 व्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.91	0.75	1.11	1.09	1.12	1.11	0.82	0.91
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.50	1.31	2.55	2.12	2.16	1.95	1.84	1.52
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	52.2	50.88	72.09	75	70.72	69.82	64.54	62.15
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	11.65	8.81	25.43	21.09	25.16	20.08	16.95	12.68
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	9.03	7.37	19.29	16.58	18.14	15.14	13.43	10.56
18 भार (बर्दन) का कुल आस्तियों से अनुपात	0.59	0.56	1.44	1.03	1.04	0.85	1.02	0.62
19 भार (बर्दन) का व्याज-आय से अनुपात	7.64	6.77	17.06	12.15	14.2	10.71	12.71	7.65
20 परिचालन (ऑपरेंटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	1.95	1.48	2.30	2.05	2.35	2.22	1.84	1.50
21 आस्तियों पर लाभ	1.21	1.02	1.01	1.49	1.03	1.15	0.91	0.88
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	10.78	6.21	16.63	21.86	15.55	18.01	22.17	21.42
23 जमा राशियों की लागत	5.77	6.90	4.99	6.05	4.33	5.40	5.50	6.38
24 उधार लागत	3.35	2.92	23.61	3.86	1.45	1.60	0.59	0.47
25 निधि (फंड्स) की लागत	5.74	6.83	5.09	5.9	4.24	5.31	5.44	6.29
26 अग्रिमों पर लाभ	8.49	9.80	9.87	10.17	8.93	9.66	9.49	9.88
27 निवेशों पर लाभ	8.73	8.48	8.37	8.20	7.63	7.28	8.02	7.77
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	2.75	2.97	4.77	4.27	4.69	4.35	4.05	3.58
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.99	1.65	3.28	2.3	3.39	1.98	2.58	1.48
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	742.64	924.38	328.59	466.87	407.41	504.52	489.17	586.02
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	5.61	5.84	2.34	4.24	2.68	3.66	2.76	3.18
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.51	12.12	12.88	11.57	12.29	12.96	11.74	11.22
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	10.05	9.34	9.58	8.04	8.93	8.52	6.24	6.62
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	2.46	2.78	3.30	3.53	3.36	4.44	5.50	4.60
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.49	0.99	0.66	0.37	0.76	0.64	0.76	0.97

स्त्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।

टेबल बी 11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुने हुए अनुपात – 2007 और 2008 (जारी)

राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रतिशत)

अनुपात	मार्च 31 की स्थिति							
	यूको बैंक		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया		विजया बैंक	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1 नकदी-जमा अनुपात	5.85	7.14	6.95	9.10	7.23	11.18	9.04	11.81
2 ऋण-जमा अनुपात	72.45	68.93	73.24	71.59	59.61	59.31	64.42	66.09
3 निवेश-जमा अनुपात	30.1	30.35	32.85	32.57	39.29	39.42	31.96	34.65
4 (ऋण+निवेश) - जमा अनुपात	102.55	99.28	106.09	104.15	98.9	98.73	96.38	100.74
5 जमा राशियों का कुल देयताओं से अनुपात	86.64	88.99	82.96	83.71	87.84	86.48	88.78	85.35
6 सावधि जमा राशियों का कुल जमा राशियों से अनुपात	70.8	74.34	65.5	65.14	57.97	61.43	69.21	72.70
7 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	34.63	33.03	39.87	28.3	37.38	32.44	39.51	35.70
8 मीयादी ऋणों का कुल अग्रिमों से अनुपात	59.24	59.92	43.65	43.64	62.04	68.33	59.16	56.36
9 प्रतिभूत (सिक्योरिटी) अग्रिमों का कुल अग्रिमों से अनुपात	87.21	79.25	78.27	84.31	86.33	83.61	77.44	75.60
10 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का कुल निवेशों से अनुपात	16.08	21.18	18.14	16.57	19.78	30.5	18.54	17.50
11 ब्याज आय का कुल आस्तियों से अनुपात	7.62	7.91	7.70	8.33	7.48	7.36	7.64	8.08
12 शुद्ध ब्याज मार्जिन का कुल आस्तियों से अनुपात	2.32	1.81	2.91	2.72	3.04	1.87	2.9	1.88
13 ब्याजेतर शुद्ध आय का कुल आस्तियों से अनुपात	0.81	0.94	0.72	0.96	0.92	0.96	0.74	0.89
14 मध्यस्थता लागत (इंटरमिडिएशन कॉस्ट) का कुल आस्तियों से निवेश	1.74	1.59	1.54	1.41	2.06	1.87	1.76	1.42
15 मजदूरी बिल का मध्यस्थता लागत से अनुपात	69.86	68.5	59.2	53.06	71.62	71.04	60.26	57.74
16 मजदूरी बिल का कुल खर्च से अनुपात	17.3	14.14	14.4	10.63	22.72	18.04	16.33	10.77
17 मजदूरी बिल का कुल आय से अनुपात	14.46	12.29	10.83	8.02	17.57	15.95	12.66	9.16
18 भार (बर्डन) का कुल आस्तियों से अनुपात	0.94	0.65	0.82	0.45	1.14	0.91	1.02	0.54
19 भार (बर्डन) का ब्याज-आय से अनुपात	12.33	8.2	10.69	5.36	15.25	12.3	13.32	6.63
20 परिचालन (ऑपरेटिंग) लाभ का कुल आस्तियों से अनुपात	1.38	1.16	2.09	2.28	1.90	0.97	1.88	1.34
21 आस्तियों पर लाभ	0.47	0.52	0.92	1.26	0.73	0.68	0.92	0.75
22 सामान्य शेयर (ईक्विटी) पर लाभ	12.34	14.75	17.34	22.13	12.6	12.57	18.58	16.59
23 जमा राशियों की लागत	5.38	6.31	5.07	6.09	4.83	5.96	5.11	6.78
24 उधार लागत	3.82	4.98	6.81	6.88	2.14	0.07	0.09	0.02
25 निधि (फंड्स) की लागत	5.33	6.27	5.16	6.12	4.80	5.85	5.05	6.62
26 अग्रिमों पर लाभ	8.39	9.32	8.76	9.85	8.78	8.98	8.63	9.67
27 निवेशों पर लाभ	7.51	7.18	7.84	8.14	7.73	7.81	8.12	8.31
28 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), अग्रिमों पर लाभ	3.06	3.05	3.60	3.72	3.98	3.13	3.57	3.05
29 कॉस्ट ऑफ फंड्स से समायोजित (एडजस्टेड), निवेश पर लाभ	2.18	0.91	2.68	2.02	2.93	1.96	3.07	1.69
30 प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. लाख में)	464.00	580.00	509.21	698.61	350.00	463.00	455.17	612.67
31 प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	1.30	1.76	3.25	5.39	1.59	1.99	3.04	3.32
32 पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.56	10.09	12.8	12.51	12.02	11.88	11.21	11.22
33 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - I	5.78	5.05	7.79	7.45	7.72	6.74	7.07	5.73
34 पूंजी पर्याप्तता अनुपात - टियर - II	5.78	5.04	5.01	5.06	4.30	5.14	4.14	5.49
35 शुद्ध अग्रिमों के अनुपात में शुद्ध अनर्जक आस्तियां	2.14	1.98	0.96	0.17	1.50	1.10	0.59	0.57

स्रोत : बैंकों के संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखे ।